



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021
पौष 1, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 49/2021/1248/सात-न्याय-2-2021-83जी-2019
लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-425

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2019) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से एतद्वारा नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने और ऐसे मामलों जिनके निमित्त पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक अन्य मामलों के संबंध में पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मामला या मामलों का विचारण करने के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय के रूप में अभिहित करती हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	न्यायालय	क्षेत्र	अभिहित न्यायालय
1	2	3	4
1	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा	जिला आगरा की स्थानीय सिविल सीमायें	आगरा
2	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़	जिला अलीगढ़ की स्थानीय सिविल सीमायें	अलीगढ़
3	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद	जिला इलाहाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	इलाहाबाद
4	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर स्थित अकबरपुर	जिला अम्बेडकर नगर स्थित अकबरपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	अम्बेडकर नगर स्थित अकबरपुर

1	2	3	4
5	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरोहा	जिला अमरोहा की स्थानीय सिविल सीमायें	अमरोहा
6	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया	जिला औरैया की स्थानीय सिविल सीमायें	औरैया
7	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़	जिला आजमगढ़ की स्थानीय सिविल सीमायें	आजमगढ़
8	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागपत	जिला बागपत की स्थानीय सिविल सीमायें	बागपत
9	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच	जिला बहराइच की स्थानीय सिविल सीमायें	बहराइच
10	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया	जिला बलिया की स्थानीय सिविल सीमायें	बलिया
11	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर	जिला बलरामपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	बलरामपुर
12	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांदा	जिला बांदा की स्थानीय सिविल सीमायें	बांदा
13	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी	जिला बाराबंकी की स्थानीय सिविल सीमायें	बाराबंकी
14	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली	जिला बरेली की स्थानीय सिविल सीमायें	बरेली
15	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती	जिला बस्ती की स्थानीय सिविल सीमायें	बस्ती
16	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही स्थित ज्ञानपुर	जिला भदोही स्थान ज्ञानपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	भदोही स्थित ज्ञानपुर
17	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर	जिला बिजनौर की स्थानीय सिविल सीमायें	बिजनौर
18	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं	जिला बदायूं की स्थानीय सिविल सीमायें	बदायूं
19	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर	जिला बुलन्दशहर की स्थानीय सिविल सीमायें	बुलन्दशहर
20	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चन्दौली	जिला चन्दौली की स्थानीय सिविल सीमायें	चन्दौली
21	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट	जिला चित्रकूट की स्थानीय सिविल सीमायें	चित्रकूट
22	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया	जिला देवरिया की स्थानीय सिविल सीमायें	देवरिया
23	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एटा	जिला एटा की स्थानीय सिविल सीमायें	एटा
24	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा	जिला इटावा की स्थानीय सिविल सीमायें	इटावा
25	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद	जिला फैजाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	फैजाबाद

1	2	3	4
26	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद	जिला फर्रुखाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	फर्रुखाबाद
27	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर	जिला फतेहपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	फतेहपुर
28	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद	जिला फिरोजाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	फिरोजाबाद
29	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर	जिला गौतमबुद्धनगर की स्थानीय सिविल सीमायें	गौतमबुद्धनगर
30	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	जिला गाजियाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	गाजियाबाद
31	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर	जिला गाजीपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	गाजीपुर
32	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा	जिला गोण्डा की स्थानीय सिविल सीमायें	गोण्डा
33	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर	जिला गोरखपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	गोरखपुर
34	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर	जिला हमीरपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	हमीरपुर
35	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हापुड़	जिला हापुड़ की स्थानीय सिविल सीमायें	हापुड़
36	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई	जिला हरदोई की स्थानीय सिविल सीमायें	हरदोई
37	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाथरस	जिला हाथरस की स्थानीय सिविल सीमायें	हाथरस
38	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थित उरई	जिला जालौन स्थित उरई की स्थानीय सिविल सीमायें	जालौन स्थित उरई
39	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर	जिला जौनपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	जौनपुर
40	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी	जिला झांसी की स्थानीय सिविल सीमायें	झांसी
41	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नौज	जिला कन्नौज की स्थानीय सिविल सीमायें	कन्नौज
42	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर	जिला कानपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	कानपुर
43	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज	जिला कासगंज की स्थानीय सिविल सीमायें	कासगंज
44	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी	जिला कौशाम्बी की स्थानीय सिविल सीमायें	कौशाम्बी
45	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थित पडरौना	जिला कुशीनगर स्थित पडरौना की स्थानीय सिविल सीमायें	कुशीनगर स्थित पडरौना
46	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी	जिला लखीमपुर खीरी की स्थानीय सिविल सीमायें	लखीमपुर खीरी

1	2	3	4
47	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर	जिला ललितपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	ललितपुर
48	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	जिला लखनऊ की स्थानीय सिविल सीमायें	लखनऊ
49	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज	जिला महाराजगंज की स्थानीय सिविल सीमायें	महाराजगंज
50	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोबा	जिला महोबा की स्थानीय सिविल सीमायें	महोबा
51	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी	जिला मैनपुरी की स्थानीय सिविल सीमायें	मैनपुरी
52	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा	जिला मथुरा की स्थानीय सिविल सीमायें	मथुरा
53	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मऊ	जिला मऊ की स्थानीय सिविल सीमायें	मऊ
54	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ	जिला मेरठ की स्थानीय सिविल सीमायें	मेरठ
55	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर	जिला मीरजापुर की स्थानीय सिविल सीमायें	मीरजापुर
56	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद	जिला मुरादाबाद की स्थानीय सिविल सीमायें	मुरादाबाद
57	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर	जिला मुजफ्फरनगर की स्थानीय सिविल सीमायें	मुजफ्फरनगर
58	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत	जिला पीलीभीत की स्थानीय सिविल सीमायें	पीलीभीत
59	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़	जिला प्रतापगढ़ की स्थानीय सिविल सीमायें	प्रतापगढ़
60	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली	जिला रायबरेली की स्थानीय सिविल सीमायें	रायबरेली
61	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	जिला रमाबाई नगर (कानपुर देहात) की स्थानीय सिविल सीमायें	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)
62	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर	जिला रामपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	रामपुर
63	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर	जिला सहारनपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	सहारनपुर
64	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्भल स्थित चंदौसी	जिला सम्भल स्थित चंदौसी की स्थानीय सिविल सीमायें	सम्भल स्थित चंदौसी
65	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर	जिला संत कबीर नगर की स्थानीय सिविल सीमायें	संत कबीर नगर
66	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर	जिला शाहजहांपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	शाहजहांपुर
67	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली	जिला शामली की स्थानीय सिविल सीमायें	शामली

1	2	3	4
68	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती	जिला श्रावस्ती की स्थानीय सिविल सीमायें	श्रावस्ती
69	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर	जिला सिद्धार्थ नगर की स्थानीय सिविल सीमायें	सिद्धार्थ नगर
70	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर	जिला सीतापुर की स्थानीय सिविल सीमायें	सीतापुर
71	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र	जिला सोनभद्र की स्थानीय सिविल सीमायें	सोनभद्र
72	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर	जिला सुलतानपुर की स्थानीय सिविल सीमायें	सुलतानपुर
73	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव	जिला उन्नाव की स्थानीय सिविल सीमायें	उन्नाव
74	वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी	जिला वाराणसी की स्थानीय सिविल सीमायें	वाराणसी

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 49/2021/1248/VII-Nyaya-2-2021-83 G-2019 dated December 22, 2021 :

No. 49/2021/1248/VII-Nyaya-2-2021-83 G-2019

Dated Lucknow, December 22, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 8 sub-section (1) of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Act no. 21 of 2019), the Governor in concurrence with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad hereby designates the Courts specified in Column-2 of the Schedule below as Designated Court as specified in Column-4 of the said Schedule to exercise jurisdiction in the area specified in Column-3 of the said Schedule and to try case or cases under the aforesaid Act in respect of the matters to which the provisions of the aforesaid Act shall apply and the other matters connected therewith or incidental thereto.

SCHEDULE

Sr. no.	Court	Area	Designated Court
1	2	3	4
1	Senior most Additional District and Sessions Judge, Agra	Local limits of civil District Agra	Agra
2	Senior most Additional District and Sessions Judge, Aligarh	Local limits of civil District Aligarh	Aligarh
3	Senior most Additional District and Sessions Judge, Allahabad	Local limits of civil District Allahabad	Allahabad
4	Senior most Additional District and Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur	Local limits of civil District Ambedkar Nagar at Akbarpur	Ambedkar Nagar at Akbarpur
5	Senior most Additional District and Sessions Judge, Amroha	Local limits of civil District Amroha	Amroha

1	2	3	4
6	Senior most Additional District and Sessions Judge, Auraiya	Local limits of civil District Auraiya	Auraiya
7	Senior most Additional District and Sessions Judge, Azamgarh	Local limits of civil District Azamgarh	Azamgarh
8	Senior most Additional District and Sessions Judge, Bagpat	Local limits of civil District Bagpat	Bagpat
9	Senior most Additional District and Sessions Judge, Behraich	Local limits of civil District Behraich	Behraich
10	Senior most Additional District and Sessions Judge, Ballia	Local limits of civil District Ballia	Ballia
11	Senior most Additional District and Sessions Judge, Balrampur	Local limits of civil District Balrampur	Balrampur
12	Senior most Additional District and Sessions Judge, Banda	Local limits of civil District Banda	Banda
13	Senior most Additional District and Sessions Judge, Barabanki	Local limits of civil District Barabanki	Barabanki
14	Senior most Additional District and Sessions Judge, Bareilly	Local limits of civil District Bareilly	Bareilly
15	Senior most Additional District and Sessions Judge, Basti	Local limits of civil District Basti	Basti
16	Senior most Additional District and Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur	Local limits of civil District Bhadohi at Gyanpur	Bhadohi at Gyanpur
17	Senior most Additional District and Sessions Judge, Bijnor	Local limits of civil District Bijnor	Bijnor
18	Senior most Additional District and Sessions Judge, Badaun	Local limits of civil District Badaun	Badaun
19	Senior most Additional District and Sessions Judge, Bulandsahar	Local limits of civil District Bulandsahar	Bulandsahar
20	Senior most Additional District and Sessions Judge, Chandauli	Local limits of civil District Chandauli	Chandauli
21	Senior most Additional District and Sessions Judge, Chitrakoot	Local limits of civil District Chitrakoot	Chitrakoot
22	Senior most Additional District and Sessions Judge, Deoria	Local limits of civil District Deoria	Deoria
23	Senior most Additional District and Sessions Judge, Etah	Local limits of civil District Etah	Etah
24	Senior most Additional District and Sessions Judge, Etawah	Local limits of civil District Etawah	Etawah
25	Senior most Additional District and Sessions Judge, Faizabad	Local limits of civil District Faizabad	Faizabad
26	Senior most Additional District and Sessions Judge, Farukhabad	Local limits of civil District Farukhabad	Farukhabad
27	Senior most Additional District and Sessions Judge, Fatehpur	Local limits of civil District Fatehpur	Fatehpur
28	Senior most Additional District and Sessions Judge, Firozabad	Local limits of civil District Firozabad	Firozabad
29	Senior most Additional District and Sessions Judge, Gautambudhnagar	Local limits of civil District Gautambudhnagar	Gautambudhnagar
30	Senior most Additional District and Sessions Judge, Gaziabad	Local limits of civil District Gaziabad	Gaziabad
31	Senior most Additional District and Sessions Judge, Gazipur	Local limits of civil District Gazipur	Gazipur

1	2	3	4
32	Senior most Additional District and Sessions Judge, Gonda	Local limits of civil District Gonda	Gonda
33	Senior most Additional District and Sessions Judge, Gorakhpur	Local limits of civil District Gorakhpur	Gorakhpur
34	Senior most Additional District and Sessions Judge, Hamirpur	Local limits of civil District Hamirpur	Hamirpur
35	Senior most Additional District and Sessions Judge, Hapur	Local limits of civil District Hapur	Hapur
36	Senior most Additional District and Sessions Judge, Hardoi	Local limits of civil District Hardoi	Hardoi
37	Senior most Additional District and Sessions Judge, Hathras	Local limits of civil District Hathras	Hathras
38	Senior most Additional District and Sessions Judge, Jalaun at Orai	Local limits of civil District Jalaun at Orai	Jalaun at Orai
39	Senior most Additional District and Sessions Judge, Jaunpur	Local limits of civil District Jaunpur	Jaunpur
40	Senior most Additional District and Sessions Judge, Jhansi	Local limits of civil District Jhansi	Jhansi
41	Senior most Additional District and Sessions Judge, Kannauj	Local limits of civil District Kannauj	Kannauj
42	Senior most Additional District and Sessions Judge, Kanpur	Local limits of civil District Kanpur	Kanpur
43	Senior most Additional District and Sessions Judge, Kasganj	Local limits of civil District Kasganj	Kasganj
44	Senior most Additional District and Sessions Judge, Kaushambi	Local limits of civil District Kaushambi	Kaushambi
45	Senior most Additional District and Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna	Local limits of civil District Kushinagar at Padrauna	Kushinagar at Padrauna
46	Senior most Additional District and Sessions Judge, Lakhimpur Kheri	Local limits of civil District Lakhimpur Kheri	Lakhimpur Kheri
47	Senior most Additional District and Sessions Judge, Lalitpur	Local limits of civil District Lalitpur	Lalitpur
48	Senior most Additional District and Sessions Judge, Lucknow	Local limits of civil District Lucknow	Lucknow
49	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mahrajganj	Local limits of civil District Mahrajganj	Mahrajganj
50	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mahoba	Local limits of civil District Mahoba	Mahoba
51	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mainpuri	Local limits of civil District Mainpuri	Mainpuri
52	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mathura	Local limits of civil District Mathura	Mathura
53	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mau	Local limits of civil District Mau	Mau
54	Senior most Additional District and Sessions Judge, Meerut	Local limits of civil District Meerut	Meerut
55	Senior most Additional District and Sessions Judge, Mirzapur	Local limits of civil District Mirzapur	Mirzapur
56	Senior most Additional District and Sessions Judge, Moradabad	Local limits of civil District Moradabad	Moradabad

1	2	3	4
57	Senior most Additional District and Sessions Judge, Muzaffarnagar	Local limits of civil District Muzaffarnagar	Muzaffarnagar
58	Senior most Additional District and Sessions Judge, Pilibhit	Local limits of civil District Pilibhit	Pilibhit
59	Senior most Additional District and Sessions Judge, Pratapgarh	Local limits of civil District Pratapgarh	Pratapgarh
60	Senior most Additional District and Sessions Judge, Raebareli	Local limits of civil District Raebareli	Raebareli
61	Senior most Additional District and Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat)	Local limits of civil District Ramabai Nagar (Kanpur Dehat)	Ramabai Nagar (Kanpur Dehat)
62	Senior most Additional District and Sessions Judge, Rampur	Local limits of civil District Rampur	Rampur
63	Senior most Additional District and Sessions Judge, Saharanpur	Local limits of civil District Saharanpur	Saharanpur
64	Senior most Additional District and Sessions Judge, Sambhal at Chandausi	Local limits of civil District Sambhal at Chandausi	Sambhal at Chandausi
65	Senior most Additional District and Sessions Judge, Sant Kabir Nagar	Local limits of civil District Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar
66	Senior most Additional District and Sessions Judge, Shahjahanpur	Local limits of civil District Shahjahanpur	Shahjahanpur
67	Senior most Additional District and Sessions Judge, Shamli	Local limits of civil District Shamli	Shamli
68	Senior most Additional District and Sessions Judge, Shravasti	Local limits of civil District Shravasti	Shravasti
69	Senior most Additional District and Sessions Judge, Siddharth Nagar	Local limits of civil District Siddharth Nagar	Siddharth Nagar
70	Senior most Additional District and Sessions Judge, Sitapur	Local limits of civil District Sitapur	Sitapur
71	Senior most Additional District and Sessions Judge, Sonbhadra	Local limits of civil District Sonbhadra	Sonbhadra
72	Senior most Additional District and Sessions Judge, Sultanpur	Local limits of civil District Sultanpur	Sultanpur
73	Senior most Additional District and Sessions Judge, Unnao	Local limits of civil District Unnao	Unnao
74	Senior most Additional District and Sessions Judge, Varanasi	Local limits of civil District Varanasi	Varanasi

By order,

PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,

Pramukh Sachiv.